



सत्यमेव जयते

आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner
केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय
Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate
जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015
GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015
Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136
E-Mail : commrappl1-cexamd@nic.in
Website : www.cgstappealahmedabad.gov.in



आजादी का
अमृत महोत्सव

By SPEED POST

DIN:- 20240364SW00000530C5

(क)	फाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/4909/2023/2097-3101
(ख)	अपील आदेश संख्या और दिनांक / Order-In -Appeal and date	AHM-EXCUS-001-APP-304/2023-24 and 13.03.2024
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री ज्ञानचंद जैन, आयुक्त (अपील) Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of Issue	20.03.2024
(ङ)	Arising out of Order-In-Original No. 31/DC/Sunrise/Div.-6/A'bad South/PMT /2023-24 dated 08.05.2023 passed by The Deputy Commissioner, Central GST, Division VI, Ahmedabad South.	
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	M/s Sunrise Co-op Commercial Society Ltd., Sunrise the Shopping, Near Swaminarayan Temple, Judges Bungalows Road, Vastrapur, Ahmedabad-380015

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए :-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :-

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।



In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम होतो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2ndfloor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.



(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशिय;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6) (i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Sunrise Co-op Commercial Society Ltd., Sunrise the Shopping, Near Swaminarayan Temple, Judges Bungalows Road, Vastrapur, Ahmedabad-380015 (hereinafter referred to as "*the appellant*") against Order-in-Original No. 31/DC/Sunrise/Div.-6/A¹bad South/PMT/2023-24 dated 08.05.2023 (hereinafter referred to as "*the impugned order*") passed by the Deputy Commissioner, Central GST, Division VI, Ahmedabad South (hereinafter referred to as "*the adjudicating authority*").

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant are holding PAN No. AAEAS2898D. The Income Tax Department provided data indicating taxable income for the financial years 2015-16 and 2016-17. On scrutiny of the data received from the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the Financial Years 2015-16 and 2016-17, it was noticed that the appellant had earned an income of Rs. 24,35,121/- during the F.Y. 2015-16, and Rs. 32,62,744/- during the F.Y. 2016-17, which was reflected under the heads "Sales / Gross Receipts from Services (Value from ITR)" filed with the Income Tax department. Accordingly, it appeared that the appellant had earned the said substantial income by way of providing taxable services but had neither obtained Service Tax registration nor paid the applicable service tax thereon. The appellant were called upon to submit required details of service provided during the F.Y. 2015-16 and 2016-17, however, they did not respond to the letters issued by the department. The appellant's failure to register for service tax, respond to correspondence, and properly assess service tax liability led to allegations of willful suppression of facts and evasion of payment. As a result, a demand for service tax payment of Rs. 8,54,679/- for the F.Y. 2015-16 and 2016-17, along with interest and penalties, was issued.

2.1 Subsequently, the appellant were issued Show Cause Notice bearing F.No. CGST/WS06/O&A/SCN-399/2020-21 dated



24.12.2020 demanding Service Tax amounting to Rs. 8,54,679/- for the period Financial Years 2015-16 and 2016-17, under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994. The SCN also proposed recovery of interest under Section 75 of the Finance Act, 1994; and imposition of penalties under Section 70, 77(1) and 78 of the Finance Act, 1994.

2.2 The Show Cause Notice was adjudicated, ex-parte, vide the impugned order by the adjudicating authority wherein the demand of Service Tax amounting to Rs. 8,54,679/- was confirmed under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 along with Interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the period from Financial Years 2015-16 and 2016-17. Further (i) Penalty of Rs. 8,54,679/- was imposed on the appellant under Section 78 of the Finance Act, 1994; (ii) Penalty of Rs. 10,000/- was imposed on the appellant under Section 77(1) of the Finance Act, 1994, (iii) late fee to the amount of Rs. 80,000/- was ordered to recover from them for each ST-3 Return filed late, under Rule 7C of the Service tax Rules, 1994 read with Section 70 of the Finance Act, 1994.

3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal on the following grounds:

- The members of the appellant society which is incorporated body and the society are not distinct person.
- The appellant in their submission have categorically contended the show cause notice categorically on the ground that their society is a 'Co-Operative Society' Registered with the 'Competent Authority' and is having its Registration No.GH20268 14.09.2003. Therefore the society is incorporated body. The said society is having 163 Members and the administration is run through a Committee having elected members, headed by an Chairman. Thus in substance a



society and its members are one and the same and are not Distinct person themselves.


- Constitution of the appellant Society has been submitted.
- Its taxation matters are governed by Doctrine of Mutuality. Therefore it is an incorporated body and not an unincorporated body.
- No service tax payable by the Co-operative Society which is incorporated under the law Doctrine of Mutuality.
- No tax is payable on the receipt from the members of incorporated society.
- The impugned order is non-speaking order.
- The appellant have submitted correct rate of service tax as per the table shown below:

Table-A

Period	Service Tax	E. Cess	SH E. Cess	SBS	KKC
01.04.2015 to 31.05.2015	12%	2%	1%	0	0
01.06.2015 to 14.11.2015	14%	0	0	0	0
15.11.2015 to 31.05.2016	14%	0	0	0.50%	0
01.06.2016 to 31.03.2017	14%	0	0	0.50%	0.50%

4. The appellant were given opportunities for Personal Hearing on 12.02.2024. Shri Vijay N. Thakkar, Consultant appeared for Personal hearing online. He reiterated the contents of the written submission and requested to allow their appeal.

5. I have carefully gone through the facts of the case, grounds of appeal, submissions made in the Appeal Memorandum and documents available on record. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the




adjudicating authority, confirming the demand of service tax against the appellant along with interest and penalty, in the facts and circumstance of the case, is legal and proper or otherwise. The demand pertains to the period Financial Years 2015-16 and 2016-17.

6. The Appellant submitted list in respect of details of input service invoices, documents in respect of constitution of the appellant

7. I have gone through the submission of the appellant and find that the appellant assert that they did not collect service tax under the bona-fide belief that they were not liable to service tax. They further contend that total impugned amount of Rs. 56,97,864/- (Rs. 24,35,121/- for F.Y. 2015-16 (+) Rs. 32,62,743/- for F.Y. 2016-17) should be considered as the cum tax amount. Therefore, the taxable value has to be arrived at by deducting the service tax portion out of the said amount. This aspect was remain left to be considered by the adjudicating authority which needs due verification at their end.

8. Upon scrutinizing the impugned order the appellant contends that the adjudicating authority determined their service tax liability at a flat rate of 15%, inclusive of Education Cess (E. Cess), Secondary and Higher Education Cess (SHEC), Swachh Bharat Cess (SBC), and Krishi Kalyan Cess (KKC). However, the appellant have presented a breakdown of their taxable income for the financial years 2015-16 and 2016-17. They argue that if the correct rate of service tax, as per the Table 'A' provided in the preceding paragraph, had been considered, their service tax liability would have been lower than what was ordered for recovery by the adjudicating authority. This aspect is required to be thoroughly examined with the verification of the supporting documents related to their income across different categories to ensure accuracy in determining the service tax liability.




9. Further I noticed that the appellant asserts their entitlement to availment of CENVAT credit for the input and input services utilized in providing the services to their members as per Rule 3 read with Rule 2(a), 2(k), and 2(1) of the Cenvat Credit Rules, 2004. They further contend that as per Rule 3(4) of the Cenvat Credit Rules, 2004 they have CENVAT credit for utilization in paying service tax on any output service. To substantiate their claim, the appellant have furnished a list of invoices pertaining to various input services. I find it necessary to remand back the matter to verify the invoices in respect of which the appellant have submitted the list.

10. Considering the facts of the case as discussed hereinabove and in the interest of justice, I am of the considered view that the case is required to be remanded back to the adjudicating authority to examine the case on merits and also to consider the claim of the appellant for exemption from the service tax. The appellant are directed to submit all the records and documents in support of their claim for exemption from the service tax before the adjudicating authority. The adjudicating authority shall after considering the records and documents submitted by the appellant decide the case afresh by following the principles of natural justice.

11. In view of the above discussion, I remand the matter back to the adjudicating authority to reconsider the issue a fresh and pass a speaking order after following the principles of natural justice.

12. अपील कर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।


The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.



(ज्ञानचंद जैन)

आयुक्त (अपील्स)

Dated: 13.03.2024



सत्यापित /Attested

(अमरेंद्र कुमार)

अधीक्षक (अपील्स)

केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद

By RPAD / SPEED POST

To,
M/s. Sunrise Co-op Commercial Society Ltd.,
Sunrise the Shopping,
Near Swaminarayan Temple,
Judges Bungalows Road, Vastrapur,
Ahmedabad-380015

Copy to :

- 1) The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
- 2) The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South
- 3) The Deputy/Assistant Commissioner, CGST, Division VI, Ahmedabad South
- 4) The Supdt.(Systems) Appeals Ahmedabad, with a request to upload on Website,
- 5) Guard File
- 6) PA file

